



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान
(विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तहत एक स्वशासी अनुसंधान एवं विकास संस्थान)
विज्ञान पथ, पश्चिम बड़ागाँव, गड़चुक, गुवाहाटी- 781035, असम, भारत
INSTITUTE OF ADVANCED STUDY IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
(An Autonomous R& D Institute of Department of Science & Technology, GoI)
Vigyan Path, Paschim Boragaon, Garchuk, Guwahati- 35, Assam, India



बिल-सह-रसीद/ BILL-CUM- RECEIPT

वैधानिक समिति / चयन समिति के सदस्यों / विशेषज्ञों के लिए बैठक शुल्क / यात्रा भत्ता / मानदेय / पारिश्रमिक आदि के लिए।
For Statutory Committee/Selection Committee Members/Experts for sitting Fee/Travelling Allowance/Honorarium/ Remuneration etc.

1.	सदस्य / विशेषज्ञ का नाम Name of Member/ Expert:	:	
2.	पद/ Designation	:	
3.	7 सीपीसी स्तर के साथ मूल वेतन Basic pay with 7CPC Level	:	
4.	संगठन/ संस्थान/ विश्वविद्यालय का पता Organization/ Institute/ University with Address	:	
5.	यात्रा/दावा का उद्देश्य Purpose of visit/ Claim	:	
6.	बैठक की तिथि, जब भी लागू हो Date of Meeting, whenever applicable	:	
7.	पारिश्रमिक/ बैठक शुल्क (प्रति बैठक) Sitting fee (per sitting)/ Remuneration	:	
8.	डाक शुल्क, यदि कोई हो (रसीद/बिल संलग्न करें) Postal Charge, if any (Receipt/ bill to be enclosed)	:	
9.	यात्रा भत्ता की राशि, यदि लागू हो तो टीए फॉर्म के अनुसार (फॉर्म संलग्न) Amount of travelling allowance, if applicable as per TA form (Form enclosed)	:	
10.	दावे की कुल राशि/ Total Amount of Claim	:	

दावेदार के हस्ताक्षर दिनांक सहित/ Signature of claimant with date

पूर्व-प्राप्ति/ PRE- RECEIPT

उपरोक्त उद्देश्य के लिए आई.ए.एस.एस.टी से ₹ (.....रुपये) मात्र प्राप्त किए/ Received ₹..... (Rupees.....) Only from IASST, for the purpose mentioned above.

हस्ताक्षर/ Signature

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/ Countersigned by the Competent Authority

निदेशक/कुलसचिव/ विभागाध्यक्ष: Director/ registrar/ Head of the Division

नोट: इस दावे के साथ प्राप्तकर्ता/दावेदार/आदाता के पीएफएमएस/एनईएफटी/आरटीजीएस विवरण प्रारूप संलग्न होना चाहिए
N.B. This claim should be accompanied with PFMS/ NEFT/ RTGS OF Receiver/claimant/ Payee Details Format